

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

फा. क्र. 17 (ई) 31-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के जिला मंदसौर नगरपालिका परिषद् के आम निर्वाचन 2015 हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला मंदसौर

नगरपालिका परिषद् मंदसौर आम निर्वाचन 2015 सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 के अन्तर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदाय की जाने हेतु अधिकारियों की सूची:—

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम विभाग	सेक्टर क्र.	वार्ड क्र.	मतदान केन्द्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री जगदीश वर्मा	कार्यपालन यंत्री, ग्राम यां. से. मंदसौर.	1	1, 2, 40	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 132, 133, 134
2.	श्री ओ. पी. निम्बे	अ.वि.अ. ग्रा. यां से. मंदसौर	2	4, 5, 21	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 69, 70, 71.
3.	श्री जी. एस. भूरिया	सहायक यंत्री, PIU मंदसौर	3	6, 7, 8, 9	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					29, 30, 31.
4	श्री डी. पी. कुमरे	कार्यपालन यंत्री, PIU मंदसौर	4	10, 11, 12	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
5	श्री फुलसिंह मालवीय	परियोजना संचालक "आत्मा" कृषि मंदसौर.	5	13, 15, 16	41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
6	श्री के. एस. सोलंकी	उप संचालक उद्यानिकी, मंदसौर.	6	17, 18, 19	56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
7	श्री बी. एस. पटेल	जिला शिक्षा अधिकारी, मंदसौर.	7	20, 23	67, 68, 75, 76, 77, 78
8	श्री वी. एस. चौहान	CDPO महिला एवं बाल विकास विभाग.	8	24, 25	79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
9	श्री रविन्द्र महाजन	जिला महिला सशक्तीकरण अधि. मंदसौर.	9	26, 27	86, 87, 88, 89, 90, 91
10	श्री संदीप दुबे	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंदसौर.	10	30, 31, 32, 33	98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
11	श्रीमती मेघना भट्ट	सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर	11	3, 14	9, 10, 11, 12, 44, 45, 46, 47
12	श्री इन्द्रपालसिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी, मंदसौर.	12	34, 35, 36	110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.
13	श्री पी. पी. शुक्ला	जिला पंजीयक मंदसौर	13	37, 38	121, 122, 123, 124, 125, 126, 127.
14	श्री के. सी. भारती	सहा. यंत्री, जनपद पंचायत मंदसौर.	14	28, 29	92, 93, 94, 95, 96, 97
15	श्रीमती उर्मिला तोमर	प्राचार्य डाईट मंदसौर	15	22, 39	72, 73, 74, 128, 129, 130, 131
16	डॉ. जे. के. जैन	वरि. पशु चिकित्सा अधिकारी मंदसौर.	रिजर्व		
17	डॉ. मनीष इंगोले	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मंदसौर.	रिजर्व		
18	श्री आर. एस. तोमर	सहा. यंत्री जनपद पंचायत, सीतामउ.	रिजर्व		

अति. जिला मजिस्ट्रेट
जिला मन्दसौर (म. प्र.)